



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ 1944 (श0)
(सं0 पटना 92) पटना, सोमवार, 30 जनवरी 2023

पत्रांक-02 / स्था0-21-01 / 2022 / 389/आ0प्र0
आपदा प्रबंधन विभाग

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

पटना-23, दिनांक-10 जनवरी, 2023

विषय : “बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली-2022” के गठन के फलस्वरूप नियमावली में वर्णित “बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा” हेतु कुल 57 पदों (सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-43 पद, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-11 पद एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-03 पद) का प्रतिवर्ष ₹ 5,34,12,096/- (पाँच करोड़ चौतीस लाख बारह हजार छियानवे रू0) के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित होने के उपरान्त आपदा प्रबंधन कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु समर्पित पदाधिकारियों का एक पृथक संवर्ग गठन किए जाने की आवश्यकता है। अतएव “बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा के गठन हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0-4598/आ0प्र0 दिनांक-20.09.2022 द्वारा “बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली-2022” का गठन किया गया है। इस नियमावली में वर्णित पदनाम के अनुसार विभिन्न कोटि के कुल 57 पदों (सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-43 पद, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-11 पद एवं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी-03 पद) का प्रतिवर्ष ₹ 5,34,12,096/- (पाँच करोड़ चौतीस लाख बारह हजार छियानवे रू0) के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली-2022" में वर्णित उक्त पद निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतन स्तर	पदस्थापन	पदों की कुल सं०	अभ्युक्ति
1	सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	Level-8	प्रत्येक जिला में 01 पद = 38 पद मुख्यालय स्तर पर 05 पद = 05 पद	43 पद	मूल कोटि
2	उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	Level-9	प्रत्येक प्रमण्डल स्तर पर 01 पद = 09 पद एवं मुख्यालय स्तर पर 02 पद = 02 पद	11 पद	प्रथम प्रोन्नति
3	आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	Level-11	मुख्यालय स्तर पर	03 पद	द्वितीय प्रोन्नति
			कुल	57 पद	

3. उपर्युक्त पदों के गैर योजना मद में सृजन पर होने वाले व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-001-0001-आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-26.12.2022 की बैठक (मद सं०-19) एवं मंत्रिपरिषद् की दिनांक-03.01.2023 की बैठक (मद सं०-11) में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु०-व्यय विवरणी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

व्यय विवरणी

क्र०	पदनाम	नवसृजित पदों की संख्या	पे-लेवल	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता (38%)	मकान भत्ता
A	B	C	D	E	F=E*38%	G
1	सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	43	Level-8	47,600.00	18,088.00	3,808.00
2	उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	11	Level-9	53,100.00	20,178.00	4,248.00
3	आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	3	Level-11	67,700.00	25,726.00	10,832.00
	कुल योग	57		1,68,400.00	63,992.00	18,888.00

क्र०	पदनाम	चिकित्सा भत्ता	शहरी परिवहन भत्ता	स्वीकृति हेतु एक पद का एक माह की परिलब्धि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद का एक माह की परिलब्धि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद का बारह माह की परिलब्धि
A	B	H	I	$J=E+F+G+H+I$	$K=J \times C$	$L=K \times 12$
1	सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	1,000.00	4,140.00	74,636.00	32,09,348.00	3,85,12,176.00
2	उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	1,000.00	4,140.00	82,666.00	9,09,326.00	1,09,11,912.00
3	आपदा प्रबंधन पदाधिकारी	1,000.00	5,520.00	1,10,778.00	3,32,334.00	39,88,008.00
	कुल योग	3,000.00	13,800.00	2,68,080.00	44,51,008.00	5,34,12,096.00

(कुल पाँच करोड़ चौतीस लाख बारह हजार छियानवे रुपये)

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 92-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>